

24 अप्रैल, 2023  
वैशाख, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी  
संवत् 2080  
पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹3.00

रांची

सोमवार, वर्ष 08, अंक 184

कलम कलम बढ़ाये जा

# आजाद सिपाही

संजय राउत का दावा,  
कहा- 15 से 20 दिन  
में गिर जायेगी शिंदे  
नीत महाराष्ट्र सरकार





**GOAL**  
Educational Services Pvt. Ltd.  
Nation's Leading Institute



**DHANBAD CENTRE NEET 2022 RESULT & many more...**

**ADMISSION IS GOING ON...**

Test Your Merit in Most Extensive & Renowned All India Level GOAL Test Series.

Separate Batch for ICSE, CBSE and State Board

Classes for All Batches Start From **16th April 2023**

**2 Years**  
Foundation 2025  
11th + 12th Board + NEET/ENGG.

**1 Year**  
Fresher Course 2024  
12th Board + NEET/ENGG.

**1 Year**  
Target 2024  
NEET/ENGINEERING

**1 Year**  
Achiever Course 2024  
NEET/ENGINEERING

**FACILITIES**

LIBRARY HOSTEL TRANSPORT

Memco More, Dhaiya, Dhanbad  
9334098595, 9308057050  
504, 5th Floor, B.S. Tower, Lalpur, Circular Road, Ranchi - 764900041/42/43

**FLORENCE**  
Group of Institutions  
(A Unit of : Haji Abdur Razzaque Educational Society)  
Irba, Ranchi-835219 (Jharkhand)

**Admission OPEN**  
2023-24

**PLACEMENT Assistance**  
Scholarship Facility Available



**NURSING** **PARAMEDICAL** **PHARMACY**  
AND BSW **BSCS** **DMIT** **CCO**  
POST BASIC B.S.C. 3-YEAR **OPTICAL**  
BASIC B.S.C. (M.S.C. ASST. OF ASSISTANT)

Separate Hostel For Boys And Girls  
M.: 9031231082, 7903999411, 6205145470  
E-mail : fsi@irba@gmail.com  
Website : www.florenceinirba.com

## अयोध्या में 156 देशों के जल से हुआ रामलला का अभिषेक

- 13 देशों के राजदूत और 40 देशों के अप्रवासी भारतीय अयोध्या पहुंचे
- आरएसएस ने दिया नया नारा 'भारत जय जगत'

आजाद सिपाही संवाददाता

अयोध्या। अक्षय तृतीया में अयोध्या में राम मंदिर का 156 देशों के जल से अभिषेक किया गया। इसमें अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल भी शामिल है। 13 देशों के राजदूत, 40 देशों के अप्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। इसमें तजाकिस्तान के ताज मोहम्मद भी हैं। उन्होंने बाबर की जन्मभूमि की नदी कश्क-ए-दरिया समेत कई मुस्लिम देशों की नदियों का जल भेजा है। मणिराम छावनी के सभागार में कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश ने नया नारा 'भारत जय जगत' दिया।

31 महीने में जुटाया जल : दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक विजय जौली श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ मिल कर यह



कार्यक्रम कर रहे हैं। जौली ने बताया कि जलाभिषेक के लिए 156 देशों का जल कलश अयोध्या लाया गया। इसमें उज्बेकिस्तान के ताशकंद की चिरचिक नदी, तजाकिस्तान की वख्या नदी, यूक्रेन की डेनिस्टर, रूस की वोल्गा, मॉरिशस का गंगा तालाब और हिंद महासागर का जल भी है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक कार्यक्रम के लिए इतने देशों का जल जुटाने के लिए 31 महीने का समय लगा। स्टॉकहोम से आशीष ब्रह्मभट्ट ने कोरीना काल के बाद सबसे पहली विस्तार की ?फ्लाइट ?से जल भेजा। हमने यूक्रेन और रूस के साथ चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जल मंगाया है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक

कार्यक्रम श्रीराम की अथक भक्ति का परिणाम है। श्रीराम विश्वव्यापी हैं। उनके मंदिर को पूरे विश्व का समर्थन है। हमारा प्रयास पूरे विश्व को आतंक और युद्ध से मुक्त कर श्रीराम की भक्ति और प्रेम से जीतने का संदेश देना है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और बुद्ध आदि विश्व के कई धर्मों के लोगों का सहयोग है।

श्रीलंका, नार्वे समेत 40 देशों के करीब 200 लोगों का समूह आया है। पूरा कार्यक्रम श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का निर्देशन और पूज्य संतों का मार्गदर्शन में हुआ।

इन 13 देशों के राजदूत रहे शामिल : कार्यक्रम में अल्बानिया के राजदूत देवेन्द्र पाल सिंह, फिजी के राजदूत कमलेश शशि प्रकाश, रोमानिया विजय मेहता, मंगोलिया ज्ञान बोर्ड, भूटान के किमजोंग दारजिक, सूरीनाम अरुण कुमार, मोटीनीग्रो डॉ जैनेश दरबारी, तुआलू के डॉ दीपक जैन, कामरास के एस गंजू, ग्रीस एलेकजेंडर वाइशे, कोर्पोवर्ड के संजय कुमार दीवान के अलावा हम्मरी और कंबोडिया के राजदूत शामिल थे।

## अमृतपाल सिंह 36 दिनों बाद गिरफ्तार

- भिंडरावाला के गांव में गुरुद्वारे से गिरफ्तार हुआ
- असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंचाया गया

आजाद सिपाही संवाददाता

अमृतसर। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिन की फरारी के बाद मोगा जिले में रोडे गांव के गुरुद्वारे से रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे बटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन ले गयी। वहां से अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। उधर, अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद मोगा जिले में तनाव है। यहां पुलिस फोर्स की तैनाती के अलावा रोडे गांव में एसएसपी ने खुद फ्लैग मार्च किया।

भिंडरावाला के जन्म स्थान पर संरेडर की प्लानिंग की : जिस रोडे गांव से अमृतपाल को पकड़ा गया, वहीं जरनैल सिंह भिंडरावाला का जन्म हुआ था। वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनने के लिए यहीं पर अमृतपाल की दस्तावेबंदी हुई थी। अमृतपाल समर्थकों की भीड़ के साथ संरेडर



करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए रविवार का दिन चुना। अमृतपाल के करीबियों ने ही पंजाब पुलिस को उसके संरेडर प्लान के बारे में बताया था। पुलिस को आशंका थी कि भीड़ जमा होने पर माहौल बिगड़ सकता है। लिहाजा पुलिस टीम सादे कपड़ों में गुरुद्वारे पहुंची और सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मर्वादा का ध्यान रखा, गुरुद्वारे के अंदर नहीं गयी : पंजाब पुलिस के आईजी हेडक्वार्टर डॉ सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि पुलिस ने 35 दिन से दबाव बनाया था। इंटीलिजेंस विंग के पास रोडे गांव में अमृतपाल की मौजूदगी का इनपुट था। उसे नाका लगा कर घेर लिया गया, लेकिन वह गुरुद्वारा साहिब के अंदर था। मर्वादा को देखते हुए

पुलिस अंदर नहीं गयी। अमृतपाल सिंह से बाहर आने के लिए कहा गया, फिर उसे गिरफ्तार किया गया।

प्रवचन में बोला- गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत : रविवार सुबह गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल सिंह ने मोगा जिले के रोडे गांव में गुरुद्वारे से प्रवचन देकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। अमृतपाल ने कहा कि यह जरनैल सिंह भिंडरावाला का जन्म स्थान है। उसी जगह पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक महीने से जो कुछ हो रहा है, वह सब सभी ने देखा है। हम इसी धरती पर लड़े हैं और लड़ेंगे। जो झूठे केस हैं, उनका सामना करेंगे। यि गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है।

## आइएस छवि रंजन से आज होगी पूछताछ

- हाजिर नहीं हुए, तो बढ़ सकती है परेशानी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। सेना की जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) रांची के पूर्व डीसी (वर्तमान में समाज कल्याण निदेशक) छवि रंजन से सोमवार

को पूछताछ करेगी। इससे पहले इडी ने छवि रंजन को 21 अप्रैल को पेश होने के लिए समन भेजा था। उस वक्त वह पेश नहीं हुए और दो सप्ताह का समय मांगा था। इडी ने उन्हें समय नहीं दिया और 21 अप्रैल को ही शाम 4 बजे तक कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया। छवि रंजन फिर भी नहीं पहुंचे।



इसके बाद इडी ने तीसरा समन भेज कर 24 अप्रैल को जल कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है। सूत्रों का कहना है कि इस बार अगर छवि रंजन पूछताछ के लिए नहीं आते हैं, तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है।

गौरतलब है कि इडी सेना की जमीन घोटाले की जांच कर रही

## 10 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है रांची का जमीन घोटाला जमीन घोटाला के सामने खान लूट बौना दिखने लगा: बाबूलाल

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत राज में रांची में हुए जमीन महाघोटाले के बारे में कई लोगों से बातचीत कर हमने इस गोरखधंधे के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास किया है। राज्य में हुए जमीन घोटाले के सामने अब खान घोटाला बौना लगने लगा है। यह जमीन घोटाला 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में दलालों, कुछ धन लोभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिल कर भ्रष्टाचार का ऐसा काम किया है, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। इसकी जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे कई बड़े सरकारी-गैर सरकारी लुटेरे लाइन लगा कर जेल जाते देखे जायेंगे।

लॉकडाउन के समय इजी मनी मेंकिंग का रास्ता बना : बाबूलाल ने कहा कि लोग बताते हैं कि हेमंत सरकार बनने के चंड महीने बाद ही कोविड लॉक डाउन लगा गया। सरकारी-गैर सरकारी कामकाज,

रोजगार ठप पड़ गये। बेईमानों ने इस अवधि में इजी मनी मेंकिंग का सबसे आसान रास्ता जमीन की हेराफेरी को बनाया। रांची में इस गोरखधंधे को अच्छे से चलाने के लिए 'सर्टिफाइड प्रॉट' अफसर की प्रेम से खोजे हुई। कोटरमा में सरकारी पेड़ तक कटाव कर बेच खाने के मामले में हाइकोर्ट से जमानत प्राप्त चार्जशीटेंड आइएस अधिकारी छवि रंजन को इस 'काम' के लिए सही आदमी समझ कर लाया गया। उन्हें यह समझाया गया कि तुम मन माफिक धंधा चलाओ-बदले में पेड़ काटने के केस से बचाने में मदद लो। इस तर्ज पर जमीन लूट योजना का नियंत्रण और डायरेक्शन सत्ता के मशहूर उस दलाल ने संभाला, जो अभी जेल में बंद है।

पहला शिकार मेडिका अस्पताल के बगल की जमीन: बाबूलाल ने कहा कि पहला शिकार मेडिका अस्पताल के बगल वाली जमीन को बनाया गया। भारी संख्या में पुलिस के बल पर जमीन कब्जा करवाया गया। मुझे यह भी जानकारी मिली है






दिन-रात जमीन कब्जा कराने का ऐसा काम हुआ, जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। हाइकोर्ट ने जिला प्रशासन के अंधा कानून की इस कार्रवाई को अभी रद्द कर दिया है। जमीन के विवाद में जांच या कब्जा के लिए रात में पुलिस को भेजने का नियम नहीं है। लेकिन कई ऐसे वीडियो हमें देखने को मिले हैं, जिसमें रात में पुलिस लाइन से बसों में भर कर पहुंचे फोर्स और अफसर आतंक कायम करने के लिए गेट तोड़ कर कई जगहों पर घुसने का प्रयास करते देखे जा सकते हैं। बाबूलाल ने कहा कि सुना है कि 'जमीन लूटो' गोरखधंधा रात में इसलिए किया जाता था कि पब्लिक की भीड़ और हंगामा न हो। कम से कम पत्रकार मौके पर पहुंचे। पीड़ित पक्ष अगर फरियाद लेकर किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सीनियर अफसरों से संपर्क करना चाहे, तो रात का बहाना बना कर कोई अफसर मिले ही नहीं। और दिन के उजाले से पहले गोरखधंधा हो जाये।

मुख्यमंत्री को सवालों का जवाब


देना चाहिए: बाबूलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए कि ये सब काम किसके आदेश पर, किसकी सह पर होता था? क्या यह संभव है कि बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के राज्य की राजधानी में इतना बड़ा गोरखधंधा हो जाये? ये कैसे संभव है कि कोई अफसर ऐसे धंधों को अंजाम देने के लिए किसी दलाल से सीधे डायरेक्शन ले और अपने किये की रिपोर्ट दलाल को ही करे? बाबूलाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जमीन महाघोटाले में इन बिंदुओं पर विस्तार से पूछताछ करनी चाहिए। पर्दे के पीछे रिमोट कंट्रोल से इस धंधे में शामिल चेहरों को भी बेनकाब कर उनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, जिनके चलते आज झारखंड की देश-दुनियां में बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि अगर रांची जमीन गोरखधंधे के पड़चंत्र की गहराई से जांच होगी, तो साहिबगंज का चर्चित 1000 करोड़ का पत्थर घोटाला बौना दिखने लगेगा।

Deals in :

All types of CP Bath fitting,  
Pumps, Sanitaryware,  
Pipes & fitting

**YASH ENTERPRISES**



J.J. Road, Beside, Deepak Trading, Upper Bazar, Ranchi-01  
Ratan Prasad  
Mob. : 9835901322, 9709082614



# शहीद जीतराम बेदिया के बलिदान दिवस पर प्रतिमा का किया अनावरण क्रांतिकारियों की गाथा को सभी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी पर : सुदेश

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
रांची। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शहीद जीतराम बेदिया के बलिदान दिवस पर बरवादाग, जोन्हा में उनकी प्रतिमा अनावरण कर, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि क्रांतिकारियों की माटी झारखंड ने असंख्य वीर शहीदों को जन्म दिया। जिन्होंने इस माटी के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। लेकिन इतिहासकारों ने झारखंड के महानायकों को इतिहास के पन्नों में वह जगह नहीं दिया। जिसके वे असली हकदार थे। झारखंड की गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली संस्कृति तथा गुणनाम क्रांतिकारियों की गाथा को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी पर



है। युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से सीखने की जरूरत है। झारखंड के महानायकों के विचारों को समझना होगा सुदेश ने आगे कहा कि झारखंड

के वीर सपूत शहीद जीतराम बेदिया ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन को जो बिगुल फूँका, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश ऋणी है उन क्रांतिवीरों का जिन्होंने

देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। युवाओं को वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य और देश निर्माण में

योगदान देना चाहिए तथा इतिहास पुनर्लेखन लिए आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें झारखंड के महानायकों और उनके विचारों को समझना होगा, नीति-निर्णयों में शामिल करना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीर शहीद जीतराम बेदिया जी की प्रतिमा का अनावरण किया सुदेश महतो ने आगे कहा कि देश की स्वतंत्रता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले झारखंड के वीर सपूतों की संघर्ष गाथा को जन-जन तक पहुंचाने हेतु हम संकल्पबद्ध हैं और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। इसी क्रम में आज वीर शहीद जीतराम बेदिया जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है।

## सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीद तेलंगा खड़िया को दी श्रद्धांजलि

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर वीर शहीद तेलंगा खड़िया के शहादत दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेज शोषकों के खिलाफ उनके विद्रोह और शहादत को सदैव याद रखा



जायेगा। झारखंड की माटी के वीर सपूत को शत-शत नमन।

## चार दिन के लिए बेंगलुरु जायेंगे दीपक प्रकाश

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए चार दिन के 24 अप्रैल को बेंगलुरु जायेंगे। यह जानकारी रविवार को प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष 24, 25, 26 और 27 अप्रैल को कर्नाटक विधानसभा



चुनाव में पार्टी के विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बेंगलुरु में आयोजित रोड शो, प्रेसवार्ता और रैली आदि को संबोधित करेंगे।

## समय रहते अगर सर्वे होता तो नहीं चलती भूमि माफियाओं की मनमानी : राजेंद्र प्रसाद

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। भूमि घोटेले पर मूलवासी सदान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार समय रहते झारखंड बनने के साथ ही शहरी क्षेत्रों के भूमि का सर्वे कराकर रिकॉर्ड ऑफ राइट बना लेती तो इस प्रकार के घोटेले को अंजाम भूमि माफिया नहीं दे पाते। इस संबंध में सिंहभूम जिला सरकार के समक्ष ज्वलंत उदाहरण है। कहा कि रांची और अन्य शहरी क्षेत्रों में भूमि घोटेला का मुख्य कारण शहरी क्षेत्र की भूमि की मांग है। इसके साथ ही शहरीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। प्रसाद ने कहा कि भूमि के स्वामित्व का निर्धारण रिकॉर्ड ऑफ राइट या खतियान से होता है, झारखंड विशेषकर शहरी क्षेत्रों की भूमि का रिकॉर्ड ऑफ राइट से बना है। मात्र सिंहभूम का रिकॉर्ड ऑफ राइट आजादी और जमींदार उन्मूलन के बाद का है। प्रसाद ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का है। उक्त अवधि में जमीन का निबंधन कोलकाता में होता था।



जिसका दुरुपयोग का परिणाम अभी सेना की भूमि घोटेला के रूप में देखा जा रहा है। प्रसाद ने कहा कि यदि सरकार समय रहते या झारखंड बनने के साथ ही शहरी क्षेत्रों के भूमि का सर्वे कराकर रिकॉर्ड ऑफ राइट बना लेती तो इस प्रकार की घोटेले को भूमि माफिया अंजाम नहीं दे पाते। प्रसाद ने मूलवासी सदान मोर्चा की ओर से सरकार से जमीन का सर्वे अभिलंबन कराने की मांग की और दोषी अधिकारियों के उपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने और जितनी भी मूल निवासियों की भूमि को गलत ढंग से हड़पा गया है, उसको वापस करवाने की मांग की है। प्रसाद ने जमीन का सर्वे पूरा नहीं होने तक भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की है।

## विधानसभा मैदान में खतियान बचाओ महाजुटान का आयोजन हम लड़ कर लोगों की जमीन वापस दिलायेंगे, चाहे लड़ाई अपनी ही सरकार से क्यों ना हो : लोबिन

**झारखंड में जो भी जमीन घोटेला हुआ है, उसकी जांच कर जमीन वापस दिलायी जाये**

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। रांची स्थित पुराना विधानसभा मैदान में रविवार को बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम ने खतियान बचाओ महाजुटान का आयोजन किया। इस दौरान बोरियो विधायक ने कहा कि हम लड़कर लोगों की जमीन वापस दिलायेंगे। अगर ये लड़ाई अपनी ही सरकार के खिलाफ हो तब भी लड़ेंगे। क्योंकि आज अपनी ही सरकार गलत कर रही है।



राज्य में कई ऐसे सीओ हैं, जो जमीन दलालों के साथ सलिल पाये जा रहे हैं। इडी की जांच भी की जा रही है। अब हमारा प्रयास है कि झारखंड में जो भी जमीन घोटेला हुआ है उसके लिए रणनीति बनाकर वापस लिया जाये। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अगर उन्हें अपनी सरकार के खिलाफ हि जंग लड़नी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे।

हो लोबिन ने राज्य में नौकरियों और स्थानीयता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोबिन हेंब्रम ने आगे कहा कि जिसके पास खतियान है, उसे ही झारखंडी माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो झारखंड बनने से पहले से यहां रह रहे हो उसे ही झारखंडी का दर्जा मिले। जिसके भी पास यहां का खतियान है वहीं असल झारखंडी है। इसके साथ

ही लोबिन ने राज्य में नौकरियों और स्थानीयता को प्राथमिकता दिए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति से ही यहां के युवाओं का भला होगा। स्थानीय लोगों को नौकरियों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि स्थानीय नीति तय करने में कई खास वर्ष या अवधि तय नहीं होनी चाहिए।

## पारस एचडसी हॉस्पिटल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत जल्द



**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। धुर्वा स्थित पारस एचडसी अस्पताल का पहला स्थापना दिवस रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। मेडिकल डायरेक्टर और न्युरोसर्जन डॉ संजय कुमार, फैंसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितेश कुमार, नेफ्रोलॉजी डायरेक्टर डॉ अशोक कुमार वैद्य, डायरेक्टर एमआइएस और जनरल सर्जन डॉक्टर मेजर रमेश दास सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अस्पताल के सभी

डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर मेडिकल डायरेक्टर और न्युरोसाइंस विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ संजय कुमार ने कहा कि 1 साल के सफर में पारस अस्पताल को वेस्ट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है, जिससे हम उत्साहित हैं। इसी के साथ हमारे कंधों पर नयी जवाबदेही भी आ गयी है। यहां पर एक छत के नीचे अलग-अलग सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराया जा रही है। इसके साथ ही यहां नयी टेक्नोलॉजी के साथ और नये डिपार्टमेंट की भी स्थापना की जायेगी, जिसमें किडनी

ट्रांसप्लांट की सुविधा, आंकोलॉजी बिल्डिंग की भी शुरुआत की जायेगी जहां पर कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करने की भी तैयारी है। डॉ संजय कुमार ने कहा कि पारस अस्पताल में पेशेंट केयर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैंसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितेश कुमार ने कहा कि 1 साल पहले हमने सेवाओं को सुदृढ़ बना कर एक छत के नीचे लोगों को सभी तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी। वहीं नेफ्रोलॉजी के डायरेक्टर डॉ अशोक कुमार वैद्य ने कहा कि जो भी मरीज यहां से इलाज करा कर जा रहे हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक

मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि समाज के लोगों का विश्वास जीते। यहां किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा तीन चार महीने में शुरू होने वाली है, जिसमें टीम भावना के साथ सभी डॉक्टर काम करेंगे। हमारा मकसद अपना फायदा नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए काम करना है। डायरेक्टर एमआइएस और जनरल सर्जन डॉक्टर मेजर रमेश दास ने कहा कि पारस अस्पताल के 1 साल के सफर में नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है। यहां एक छत के नीचे एमआइएस इन्विवर्मेंट की सुविधा मरीजों को दिलायी जाती है जो कि वर्ल्ड क्लास है।

## जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की काँपी जांच शुरू

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। झारखंड में जैक ने मैट्रिक और इंटर की काँपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाये गये हैं। मालूम हो कि इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 अप्रैल और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न हुई थी। तकरौबन 20 दिनों के बाद जैक परीक्षा की काँपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। काँपियों की जांच के लिए पूरे राज्य के 19 जिलों में 66 केंद्र बनाये गये हैं। इनमें मैट्रिक की

काँपियों की जांच के लिए 35 केंद्र और इंटर की काँपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाये गये हैं। मालूम हो कि इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 अप्रैल और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न हुई थी। तकरौबन 20 दिनों के बाद जैक परीक्षा की काँपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। काँपियों की जांच के लिए पूरे राज्य के 19 जिलों में 66 केंद्र बनाये गये हैं। इनमें मैट्रिक की

काँपियों की जांच के लिए 35 केंद्र और इंटर की काँपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाये गये हैं। मालूम हो कि इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 अप्रैल और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न हुई थी। तकरौबन 20 दिनों के बाद जैक परीक्षा की काँपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। काँपियों की जांच के लिए पूरे राज्य के 19 जिलों में 66 केंद्र बनाये गये हैं। इनमें मैट्रिक की

काँपियों की जांच के लिए 35 केंद्र और इंटर की काँपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाये गये हैं। मालूम हो कि इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 अप्रैल और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न हुई थी। तकरौबन 20 दिनों के बाद जैक परीक्षा की काँपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। काँपियों की जांच के लिए पूरे राज्य के 19 जिलों में 66 केंद्र बनाये गये हैं। इनमें मैट्रिक की

## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: झारखंड में नयी तकनीक से बनेंगी 1030 किमी ग्रामीण सड़कें

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस बार 1030 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें नयी तकनीक से बनेंगी। इसे फुल डेथ रेक्लिमेसन (एफडीआर) के तहत मेटेरियल के फिर से इस्तेमाल करके बनाया जायेगा। ऐसे में मौजूदा सड़क से उसका मेटेरियल निकाल कर उसे नयी सड़क के निर्माण पर लगाया जायेगा। इससे चिपस आदि खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सड़क पर लगे चिपस का ही



इस्तेमाल कर लिया जायेगा। इस तरह चिपस और परखर के लिए पहाड़ नहीं तोड़े जायेंगे। ऐसे में पर्यावरण के लिए यह अच्छा

होगा। इस पद्धति पर झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बजट बनाया है। हाल ही में सारे इंजीनियरों और ठेकेदारों को

इसकी ट्रेनिंग दी गयी है। अब जाकर इसे लागू करने के लिए सारे प्रमंडलों को आवश्यक निर्देश दिए गये हैं। भारत सरकार ने भी इसके अनुपालन पर विशेष जोर देने को कहा है। राज्य के इंजीनियरों की बताया गया है कि इस सिस्टम से सड़कों के निर्माण का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सड़कें मजबूत और टिकाऊ बन रही हैं। सड़कों के निर्माण के दौरान इसकी जांच कैसे हो, इसकी गुणवत्ता मापने के ब्या तरीके हों, इससे भी इंजीनियरों को अवगत कराया गया है।















## अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनायी



**बाबू वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा और राष्ट्र के लिए उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा** : डीडी सिंह

### आजाद सिपाही संवाददाता

सिमडेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के मौके पर रविवार को डाक बंगला सिमडेगा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिमडेगा की ओर से विजय महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।

मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए संरक्षक डीडी सिंह ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़कर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में जाना जाता है। वे 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने

की क्षमता रखते थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू वीर कुंवर सिंह कुशल सेनानायक थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा और राष्ट्र के लिए उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। मौके छोटे-छोटे बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत संगीत कविता एवं कई प्रकार की प्रस्तुति की गयी। इस दौरान पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व सिमडेगा कचहरी के पास बने वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिमडेगा के सदस्यों के द्वारा माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गयी। मौके पर अध्यक्ष टीपी सिंह, डीडी सिंह, गोर सिंह, अखिलेश सिंह, अरुण सिंह, गोरखनाथ सिंह, मितेश सिंह, सोनु सिंह, भोला सिंह, नवीन सिंह, जगदीश सिंह, शिवराज सिंह, आकाश सिंह, दिलीप सिंह सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे।

## खरवार आदिवासी एकता संघ की डुमरी प्रखंड स्तरीय कमेटी का किया गया गठन



को लेकर जिला अध्यक्ष देवी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि संरक्षक रामचंद्र खरवार ने कहा कि समाज को संगठित होना अति आवश्यक है। समाज के हर छोटे बड़े लोगों को विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। तब जाकर हमारे समाज का विकास हो सकेगा। हमारे समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं जो संगठित होने के बाद ही समाप्त हो सकेंगी। हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए ग्राम स्तर पर संगठन विस्तार करने की जरूरत है। जिससे समाज में एक स्वच्छ माहौल बन सके। वहीं खरवार लोक सेवक संघ के जिला अध्यक्ष बाबूलाल खरवार ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति व समाज को नशा पान से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, तभी जाकर समाज विकास कर सकता है। हमें आज इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में सर्वसम्मति नये प्रखंड स्तरीय कमेटी का विस्तार किया गया। जिसमें प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती द्रोपती देवी, उपाध्यक्ष रामेश्वर खरवार, चंद्रेश सिंह खरवार, सचिव लालधर सिंह खरवार, उपसचिव रामप्रवेश खरवार, विश्वनाथ खरवार, कोषाध्यक्ष अर्जुन साय, संगठन मंत्री देवनायण खरवार, सदस्य श्रीमती मालती देवी, जयश्री देवी, कुंती देवी, चैतु खरवार, मुन्ना सिंह खरवार शामिल हैं। मौके पर खरवार लोक सेवक संघ प्रदेश सचिव रणविजय सिंह खरवार, आदिवासी एकता संघ उप सचिव वीरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।

## भवनाथपुर में बाइक दुर्घटना में युवक घायल

भवनाथपुर (आजाद सिपाही)। भवनाथपुर-श्रीबंशीधर नगर मुख्य पथ पर छह मईलवा के समीप रविवार को हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक 20 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल युवक का नाम श्रीबंशीधर नगर थाना क्षेत्र के कोल्हूआ गांव निवासी रामकुमार सिंह बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रामकुमार सिंह बाईक से कोल्हूआ अपने गांव से भवनाथपुर आ रहा था, तभी छह मईलवा के समीप तेज रफ्तार बाईक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गयी, जिससे रामकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में रामकुमार सिंह को एम्बुलेंस से भवनाथपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सक द्वारा उसे गढ़वा रेफर कर दिया गया।

## कार्यक्रम : गुमला धर्मप्रांतीय काथलिक महिला संघ की 28वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन

## गुमला धर्मप्रांत के प्रशासक लीनुस पिंगल एवका ने समारोही खीस्तयाग संपन्न कराया

समाज को एकता में बांधने का काम सिर्फ महिला ही कर सकती है : जिग्गा सुसारण होरो

**अपनी भाषा को संजोए रखें यही हमारे आदिवासी समाज की पहचान है : भूषण तिकी**

### आजाद सिपाही संवाददाता

बसिया। प्रखंड के ममरला पल्ली में गुमला धर्मप्रांतीय काथलिक महिला संघ की 28वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक जिग्गा मुंडा एवं गुमला विधायक भूषण तिकी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में गुमला धर्मप्रान्त के प्रशासक

लीनुस पिंगल एवका द्वारा समारोही खीस्तयाग संपन्न कराया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर धर्मप्रांतीय कैथोलिक सभा के अध्यक्ष सेत कुमार एवका द्वारा सहयात्री कलीशिया में महिला संघ की भूमिका पर प्रकाश डाला। मौके पर मुख्य अतिथि सिस्सई विधायक जिग्गा सुसारण होरो ने कहा कि समाज को एकता में बांधने का काम सिर्फ महिला ही कर सकती है। आज घर और समाज को आगे बढ़ने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलायें ही बच्चों की शिक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि गुमला धर्मप्रांत के 8 भिखारियेट की 40 पल्लियों से

**बैठक : मिशन बदलाव भरनो प्रखंड कमेटी की बैठक में भूषण भगत ने युवाओं से कहा**

## जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी से बार-बार सवाल पूछने की जरूरत है

**हमारी कोशिश है कि युवाओं की उर्जा को सही दिशाओं के साथ समाज के बेहतरी के लिए जोड़ा जा सके : अभिनाव कौशल**

### आजाद सिपाही संवाददाता

गुमला। मिशन बदलाव भरनो प्रखंड कमेटी की बैठक बुधेश्वर उरांव की अध्यक्षता में बटकुरी में की गई, जिसमें ग्रामीणों ने भी उपस्थिति दर्ज करायी। बैठक में संबोधित करते हुए भूषण भगत ने कहा कि आज हमारे गांव के युवाओं को समाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। युवाओं के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी के समक्ष अपने एवं गांव की समस्याओं को पहुंचाने की जरूरत है और सवाल भी पूछना है कि अभी तक हमारी समस्याओं का



समाधान क्यों नहीं हुआ है और ये सवाल बार-बार पूछने की जरूरत है।

मिशन बदलाव रांची के अभिनाव कौशल ने कहा कि प्रत्येक युवाओं में ऊर्जा रहती है और हमारी कोशिश है कि युवाओं की उर्जा को सही दिशाओं के साथ समाज के बेहतरी के लिए जोड़ा जा सके। बुधेश्वर उरांव ने कहा

कि हमारे युवाओं के द्वारा निरंतर समाज के बेहतरी के लिये योगदान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा सामुदायिक लॉनिंग सेंटर के कारण बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं एवं आने वाले समय में बच्चों का भविष्य उज्वल करने में सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बुधेश्वर उरांव ने बताया कि आज पदाधिकारियों की घोषणा

को स्थागित कर दी गयी। अगली बैठक में प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष गंगा उरांव के द्वारा कमेटी की घोषणा सभी सदस्यों की सहमति के अनुसार की जायेगी।

बैठक में पंचायत समिति सदस्य राजेश्वरी देवी, 9 पहाड़ की रथिया देवी, पंचम उरांव, अजय उरांव एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

## सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स के लिए चयन 25-26 अप्रैल को गुमला में

### आजाद सिपाही संवाददाता

गुमला। पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड के अधिनस्थ झारखंड खेल प्राधिकरण, रांची द्वारा नव सृजित स्वीकृत सेंटर फॉर एक्सीलेंस एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र (एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र) हेतु बालक एवं बालिका वर्ग के 16 वर्ष से 22 वर्ष तक के सुयोग्य खिलाड़ियों का चयन अलग अलग जिलों में किया जाएगा।

वहीं एथलेटिक के लिए गुमला में अल्बर्ट एवका एवका स्टेडियम में 25-26 अप्रैल को प्रातः 7:00 बजे से चयन प्रकिया किया जाएगा। आवेदक खिलाड़ी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरीय, आल इंडिया इंटर

**आवेदक खिलाड़ी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरीय, आल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी से आयोजित खेलों में भागीदारी निभायी हो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी**

यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित खेलों में भागीदारी अथवा मेडलिस्ट हों उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। एथलेटिक्स- 28-29 अप्रैल - संत जोसेफ हाई स्कूल, महुआडांड-लातेहार, 2-3 मई - कर्जन स्टेडियम - हजारीबाग , 5-6 मई - सिद्धो कान्हू स्टेडियम, साहेबगंज, 8-9 मई - एसोसिएशन फुटबॉल ग्राउंड, चाईबासा, 11 मई बिरसा मुंडा

फुटबॉल स्टेडियम, रांची में ट्रायल होंगे। चयन समिति में मनोहर टोपनो राज्य समन्वयक, साझा अध्यक्ष हरेंद्र सिंह आवासीय प्रशिक्षक, चाईबासा, योगेश यादव एथलेटिक्स आवासीय प्रशिक्षक, साहेबगंज, प्रभात रंजन तिवारी एथलेटिक्स आवासीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक, हजारीबाग, नीरज राय आवासीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक, बोकारो, सुरेश उरांव डे बोर्डिंग प्रशिक्षक, लातेहार होंगे। अंतिम रूप से चयनित (बालक/बालिका) खिलाड़ियों को राज्य सरकार नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

## कामडारा में छड़ लदा टेलर पलटा



**कामडारा (आजाद सिपाही)।** दुर्घटना का पर्याय बन चुके कामडारा थाना क्षेत्र के लोंयंगा बाजार टांड के पास शनिवार को पुनः छड़ लदा एक टेलर पलटा गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह ट्रेलर पतरतू से छड़ लदा कर ओडिसा राज्य के अंगूर जा रहा था। मालूम हो कि कामडारा थाना क्षेत्र के लोंयंगा बाजार टांड मोड़ के पास सड़क की बनावट के कारण आवे दिन दुर्घटना होती रहती है। हल्की सी बारिश या बरसात के मौसम में लगभग प्रत्येक दो से तीन दिन में वाहन दुर्घटना होना आम बात है।

## विहिप-बजरंग दल कार्यकर्ताओं को दिया गया वर्ग प्रशिक्षण

**संगठन की मजबूती को लेकर किया गया पंचायत वार संगठन का विस्तार**

### आजाद सिपाही संवाददाता

सिसई। रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्या मंदिर कुदरा के सभागार में रविवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृ शक्ति संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय वर्ग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विहिप विभाग के जिला संयोजक मुकेश सिंह और लोहरदगा संगठन मंत्री कार्तिक विश्वकर्मा के द्वारा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को शारीरिक व बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विहिप बजरंग दल



संगठन की मजबूती, संगठन के मूलमंत्र सेवा, सुरक्षा व संस्कार भाव के साथ लोगों को जोड़ने में संगठन विस्तार को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर पंचायत वार संगठन का विस्तार किया गया। जिसमें बरगांव उत्तरी व दक्षिणी पंचायत प्रभारी विश्वकर्मा गिरि, पंडरिया, रेडवा, मुर्गु के लिए अमर चौधरी, कुरारा, भदौली, लकैया व सिसई के लिए सौरभ

ताम्रकार, शिवनाथपुर, घाघरा व बोण्डो के लिए उमेश मिश्रा, पुसो, लरंगो व भुरसो के लिए संजय देवी, सुनिता देवी, लक्ष्मीण देवी, गौरी देवी, विमला देवी, सीमा देवी, गीता देवी, कौशल्या देवी, राखी देवी, शिल्पा कुमारी, काजल कुमारी, कविता कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में विहिप बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी व मातृ शक्ति के कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रमुख मनीष बाबू, विहिप मंत्री उदय कुशवाहा, कार्तिक विश्वकर्मा, विकास साहु, लक्ष्मी साहु, विवेक मेहता, रवि नायक,सुर्वभूषण साहु, मुस्कान पंकज साहु, गौतम साहु, वसंत साहु, कृष्णा कुमार साहु, पुष्प कुमार सिंह, सुखदेव प्रजापति, अमन ठाकुर, पूर्णिमा देवी, वीणा देवी, सुनिता देवी, लक्ष्मीण देवी, गौरी देवी, विमला देवी, सीमा देवी, गीता देवी, कौशल्या देवी, राखी देवी, शिल्पा कुमारी, काजल कुमारी, कविता कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में विहिप बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी व मातृ शक्ति के कार्यकर्ता मौजूद थे।

## महत्वपूर्ण न्यूज

## सिसई प्रखंड के कुदरा मोड़ में आदिवासी परिधान वस्त्रालय का उद्घाटन



**सिसई (आजाद सिपाही)।** प्रखंड के कुदरा मोड़ स्थित पूर्व सैनिक कार्तिक उरांव के मकान में आदिवासी परिधान वस्त्रालय का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज के पहान सुरेन्द्र पहान व पुजार चन्द्र उरांव के द्वारा आदिवासी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर विधिवत उद्घाटन किया गया। वस्त्रालय की संचालिका उषा उरांव ने बताया कि हमारे प्रतिष्ठान में आदिवासी समाज के पारंपरिक वेशभूषा साड़ी, धोती, गमछा, बेंडो, शॉल, टोपी, वर-वधु विवाह परिधान सेट सहित सभी प्रकार के वस्त्र किफायती कीमत पर खुदरा व थोक में उपलब्ध हैं। प्रखंड में पूर्व से एक भी आदिवासी परिधान की दुकान नहीं होने के कारण लोगों को विभिन्न सामाजिक पूजा-पाठ, त्यौहारों सहित शादी-विवाह समारोह के दौरान बड़े शहरों या महंगी दुकानों की ओर रुख करना पड़ता था। मौके पर पंसेस कुदरा अनिता उराईन, भुखला पहान, कार्तिक उरांव, जयराम उरांव, गंदिरा उरांव, लक्ष्मण उरांव, महावीर महलो, चिन्ता देवी, सरोज लकड़ा, बहुरी देवी, राजमनी देवी, विमला देवी, करमी देवी, विनीत उरांव, प्रतिमा उरांव, आशामुनी देवी, रेखा देवी, रंगा उराईन, संक्रांति उरांव, प्रतिमा तिकी सहित कई लोग मौजूद थे।

## एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनायी गयी



**बसिया (आजाद सिपाही)।** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बसिया में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनायी गयी। प्राचार्य संजय कुमार सिंह ने वीर कुंवर सिंह के चित्र के समक्ष दीप जलाकर व पुष्पाचन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के छात्र ओम उरांव, तुलसी उरांव, धनेश्वर सिंह मुंडा, आशीष भगत, अनुज उरांव, प्रेम चंद लोहरा, दीपक बेदिवा, रस्तम उरांव, कारण उरांव, आनंद उरांव, तिरीश उरांव, आयुज उरांव, पॉल जैक्सन केरकेट्टा, आलोक उरांव, अमित उरांव तथा सूरज भगत ने वीर कुंवर सिंह के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। विद्यालय के शिक्षक कंचन कुमार तथा बादेश कुमार मंडल ने बाबू वीर कुंवर सिंह के विराट व्यक्तित्व की चर्चा की। प्राचार्य संजय कुमार सिंह ने वीर कुंवर सिंह को भारत माता का सच्चा सपूत बताते हुए कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के बूढ़े नहीं 80 वर्ष के जवान थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक संदीप कुमार पंडित ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों का योगदान रहा।

## वीक्षण कार्य का मानदेय भुगतान नहीं होने पर सहायक शिक्षकों में आक्रोश

**बिशुनपुर (आजाद सिपाही)।** सहायक शिक्षक को वीक्षण कार्य के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं होने पर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ गुमला के अध्यक्ष रामदेव गोप ने कहा कि सहायक अध्यापक कम मानदेय में सरकारी शिक्षक के बराबर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद विभाग के द्वारा इनका वेतन रोकना उचित नहीं है। उन्होंने रविवार को विशुनपुर में पत्रकारों को बताया कि 13 मार्च 2003 से 20 अप्रैल 2023 तक सहायक शिक्षकों को मैट्रिक, इंटर एवं नौवीं की परीक्षा कराने के लिए अलग-अलग विद्यालयों में भेजा गया था। जिस दिन परीक्षा नहीं थी उस दिन सभी शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य किया गया। इसके बावजूद सिसई प्रखंड के सहायक शिक्षकों को वीक्षण कार्य के दौरान का मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे शिक्षकों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोगों का मानदेय भुगतान नहीं होता है तो मजबूरन टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के द्वारा विभाग के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सहायक अध्यापक शिक्षण कार्य करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वीक्षण कार्य के दौरान उनका मानदेय भुगतान नहीं किये जाने से शिक्षकों के घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक से तत्काल सिसई प्रखंड के सभी सहायक अध्यापकों का मानदेय भुगतान करने की मांग की है।

## गढ़वा वन प्रमंडल पदाधिकारी से मिल कर हाथियों से पहुंची क्षति से अवगत कराया

**रंका (आजाद सिपाही)।** रंका दक्षिणी जिप सदस्य प्रमिला देवी प्रतिनिधि रमन सिंह ने गढ़वा वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार से मुलाकात कर रंका अनुमंडल क्षेत्र में हाथियों के द्वारा पहुंचाई



जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं बचाव से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और समाधान करने की मांग की है। इसके संबंध में प्रतिनिधि रमन सिंह ने बताया कि गढ़वा डीएफओ को रंका अनुमंडल क्षेत्र के बांदू, बाराडीह, अमहर, नगारी आदि कनहर नदी रामानुजगंज छत्तीसगढ़ क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। पिछले सप्ताह अमहर निवासी गणेश यादव 70 वर्ष को महुआ चुनावाने के लिए जाने के क्रम में हाथी ने मौत की घाट उतार दिया, जिसका क्षतिपूर्ति नहीं मिला है। साथ ही भविष्य में भी हाथियों के कारण जान माल का खतरा बना हुआ है। कितने लोगों का घर ध्वस्त कर दे रहे हैं और कितने लोगों की खेती व फसलों को चौपट कर दे रहे हैं। हाथियों के कारण क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हाथियों की संख्या छोटे बड़े मिला कर लगभग पच्चीस है। ये हाथी कनहर नदी पार कर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ की ओर चले जाते हैं और फिर नदी के किनारे रंका अनुमंडल झारखंड में भी प्रवेश कर जाते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जिला परिषद सदस्य के इस मांग के आलोक में हाथी या अन्य जंगली जानवरों के द्वारा मौत होने पर सरकार के द्वारा निर्धारित मुआवजा सहयोग राशि प्रदान करने, घर व फसलों की क्षतिपूर्ति मुआवजा के लिए हरसंभव मदद करने का गढ़वा वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने आश्वासन दिया है।

## लाइसेंस बचाये रखने के लिए एडीएसओ ने लिये 1.5 लाख

गंगा स्वयं सहायता समूह ने विभाग से लेकर डीसी, सीएम तक न्याय के लिए लगाई गुहार आजाद सिपाही संवाददाता

हरिहरगंज/पलामू। प्रखंड क्षेत्र के कुलहिया पंचायत अंतर्गत जगदीशपुर गंगा स्वयं सहायता समूह की संचालक के पति शिवपूजन कुमार मेहता ने आपूर्ति विभाग से लेकर डीसी, सीएम तक न्याय के लिए गुहार लगाई है। शिवपूजन मेहता ने आरोप लगाया कि पट्टे के तहत गंगा स्वयं सहायता समूह को निर्लंबित कर दिया गया, जबकि लाइसेंस बचाए रखने के लिए सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी निर्मल कुमार सिंह द्वारा मांगे जाने पर दूसरे से कर्ज लेकर एक लाख पांच हजार रुपये दिए हैं। इसमें 35 हजार



रुपये जिला आपूर्ति कार्यालय के प्रधान सहायक सुधीर कुमार सिन्हा के लिए भी मांगा गया है। पैसे देने के बावजूद मेरे राशन दुकान का एक सामानांतर समूह बनाकर राशन वितरण के लिए शारदा देवी आदि के नाम हस्तान्तरित करवा दिया और पूर्व में दिए पैसे हड़प लिए गए। पैसे वापिस मांगे जाने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। शिवपूजन

## युवाओं को बाबू वीर कुंवर सिंह के पदचिह्नों पर चलने की जरूरत है: कर्नल संजय सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती सह विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अतिथियों ने नमन किया। इसके बाद लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे का न्यकारा लगाते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम आंदोलन के महानायक वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। उनके पद चिह्नों पर चलकर ही देश आगे



बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे अन्याय के विरोधी थे। स्वतंत्रता प्रेमी के साथ ही कुशल सेना नायक भी थे। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस मौके पर कर्नल संजय सिंह, श्री

## आशी लाइफ केयर में हृदय रोगियों के लिए चिकित्सीय सुविधा गौरव की बात: अविनाश

आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। शिक्षा और चिकित्सा आम जनमानस की कमाई की कमी है। ये दोनों साथ दे दे तो मनुष्य बुलंदी के शिखर को चूम लेगा नहीं तो कमर टूट जाएगा। उक्त बातें मुख्य अतिथि सह माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने कही। वे रिविहार को शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल आशी लाइफ केयर के हृदय रोग यूनिट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर हृदय रोगियों के लिए वेहतर चिकित्सीय सुविधा का उद्घाटन किया। अस्पताल के निदेशक मनीष तिवारी ने सभी अतिथियों को



पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ के दो डॉक्टर डॉ पंकज और डॉ साकेत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अविनाश देव ने कहा कि पलामू प्रमंडल से रांची पहुंचना समय के साथ अतिरिक्त खर्च का बोझ भी बढ़ता है। ऐसी स्थिति में पलामू

## स्पोर्ट्स

### कोहली की कप्तानी में लगातार दूसरा मैच जीता, डु प्लेसिस-मैक्सवेल ने खेले अर्धशतकीय पारियां

## आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रनों से हराया

एजेंसी

बेंगलुरु। ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस की शतकीय साझेदारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमियर लीग-16 के 32वें मुक़ाबले में रिविहार को राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से हराया। यह बेंगलुरु की राजस्थान पर ओवरऑल 14वें जीत है। दोनों के बीच अब तक 29 मुक़ाबले खेले गए हैं। इनमें से 12 राजस्थान ने जीते हैं। मौजूदा सीजन की बात करें तो यह बेंगलुरु की 7 मैचों में चौथा जीत है। टीम फॉर्इंट्स टेबल के 5 नंबर पर है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु की टीम ने रॉयल्स को बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 189



रन बनाए। जवाब में राजस्थान के बल्लेबाज 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन ही बना सके।

**जायसवाल-पड्डीकल ने रॉयल्स को संभाला**

एक रन पर बटलर का विकेट गंवाने के बाद ओपनर यशस्वी जायसवाल और देवदत्त

## नपं प्रतिनिधियों ने किया गुलाब बाग स्टेडियम के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शहर के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर: नगर अध्यक्ष

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित गुलाब बाग स्टेडियम के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास नगर पंचायत अध्यक्ष शशि कुमार, झामुमो के वरिष्ठ नेता एजाज हुसैन उर्फ छेदी खान, नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, वार्ड पार्षद सुनीता देवी व राजद के प्रदेश सचिव जाकिर अली उर्फ राज अली ने संयुक्त रूप से किया। इसका निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से



सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास करते नपं प्रतिनिधि व अन्य।

करीब 52 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि हुसैनाबाद शहर के गुलाब

बाग स्टेडियम खेल मैदान, खेल के साथ ही विभिन्न आयोजनों के लिए काफी उपयोगी है। इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद शहर में विकास के कार्यों के लिए वह हमेशा आगे रहते हैं।

स्टेडियम मैदान के सुंदरीकरण कार्य हो जाने से खिलाड़ियों व खेल प्रेमी-दर्शकों के साथ ही आमलोगों को भी काफी सुविधा उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि शहर में चल रहे विकास के कई योजनाओं से

शीघ्र ही हुसैनाबाद शहर नए रूप में दिखने लगेगा। वहीं, नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि शहर को विकास के हर मामले में अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य है। इस मौके पर मनोज शर्मा, आलोक श्रीवास्तव, सुबोध कुमार, आशीष कुमार, दिनेश कुमार, डॉ अजय, चिराग पासवान, संजीत कुमार, शमीम कुरैशी, प्रवीण कुमार, धनु कुमार, शक्ति पासवान, राजकुमार राज और राहुल तिवारी आदि मौजूद थे।

## पलामू में पूर्व नक्सली मिथिलेश यादव की गोली मारकर हत्या



आजाद सिपाही संवाददाता

पलामू। नक्सली गतिविधियों व संगठन से दूरी बना चुके पूर्व नक्सली मिथिलेश यादव की रिविहार को सिलदाग स्कूल के पास गोली मारकर हत्या कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आवे अपराधियों

ने गोली मारकर मिथिलेश की हत्या कर दी। वह वर्तमान में ईंट भट्टा चलाता था। उधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

## बिजली बकाया रखनेवाले घरेलू उपभोक्ता एक मुश्त योजना का लाभ उठाएँ : प्रदीप सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची की ओर से घोषित एकमुश्त योजना पूरे राज्य में लागू है, जो 30 जून तक चलेगा। इस योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत भार पांच किलोवाट है और दिसंबर 2022 से बिजली बिल बकाया है। उनका 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। उक्त जानकारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड हुसैनाबाद के कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने रिविहार को प्रेस विज्ञापित जारी कर



कनीय अभियंता प्रदीप सिंह।

दी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ पांच बराबर क्रिस्तो में भी ले सकते हैं। साथ ही जो उपभोक्ता अभी तक विद्युत

कनेक्शन नहीं लिए हैं वह यथाशीघ्र अपना कनेक्शन करवा लें। अन्यथा पकड़े जाने पर उनपर विभागीय कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन बिजली उपभोक्ताओं का बकाया राशि पांच हजार रुपये है वह यथाशीघ्र कार्यालय में आकर अपना बिल जमा करें। ऐसा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने के साथ ही विभागीय नियमानुसार कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वैसे उपभोक्ता जो अभी तक बिजली मीटर नहीं लगवाए हैं, वह अक्टूबर बिजली मीटर लगाकर 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ लें।

## रतन इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रतिष्ठान के खुलने से लाभान्वित होंगे चैनपुर के लोग : नामधारी

चैनपुर वासियों को मिला रतन इलेक्ट्रॉनिक्स का तोहफा आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। मेदिनीनगर में लगातार 25 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तहलका मचाने वाले रतन इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा शोरूम रिविहार को चैनपुर में खोला गया। रतन इलेक्ट्रॉनिक के दूसरे शोरूम का उद्घाटन झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और उनके पुत्र दिलीप सिंह नामधारी ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया।

इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि चैनपुर जैसे क्षेत्र में रतन इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का शोरूम खुलना चैनपुर के विकास का शोकांतक है। इससे चैनपुर वासियों को लाभ मिलेगा।



उन्होंने शोरूम प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर प्रेम सिंह नामधारी व हरजी नामधारी को शुभकामना दी। इस अवसर पर रतन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर प्रेम सिंह नामधारी और हरजी नामधारी ने कहा कि अब चैनपुर वासियों और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को डालटेनगंज जाने की जरूरत नहीं है। उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान के

खुलने के इस अवसर पर पलामू जिला के प्रसिद्ध समाजसेवी सोनू सिंह नामधारी, इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक झामुमो के युवा नेता दीपक तिवारी, समाजसेवी परवेज अख्तर, रतन सिंह नामधारी, संत अवतार सिंह, सिमरन कौर, सतवीर कौर, जिसा के अध्यक्ष अविनाश वर्मा, संतोष यादव, वेद प्रकाश कमलापुरी, काशी प्रकाश नारायण यादव, दिलीप कश्यप व साहब सिंह नामधारी समेत दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने प्रोपराइटर को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि चैनपुर वासियों को इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अब शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। उनके गांव घर में ही सब सामान प्राप्त होगा।

## आज की पत्रकारिता चुनौतियों से भरा विषय पर गोष्ठी का आयोजन

तोलरा रामानुज उच्च विद्यालय प्रांगण में कवि सम्मेलन सह विचार गोष्ठी का आयोजन आजाद सिपाही संवाददाता

विश्रामपुर/पलामू। विश्रामपुर प्रखंड के तोलरा गांव स्थित रामानुज उच्च विद्यालय प्रांगण में रिविहार को कवि सम्मेलन सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन झारखंड पत्रकार संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार सह साहित्यकार श्याम किशोर पाठक, जिलाध्यक्ष नीलकमल शुक्ला, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति डॉ सदस्य ईश्वर सागर चंद्रवंशी, भाजपा नेता अलखनाथ पांडेय, युवा बसपा नेता अभिमन्यु सिंह, बसपा प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता, राजद नेता पप्पू सिंह, वरीय कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला व प्रमुख रंभा देवी ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही कवि अश्वथाम पत्रकार योगेंद्र मिश्रा व संचालन



पत्रकार रामनिवास तिवारी ने किया। आज की पत्रकारिता और चुनौतियां विषय पर अतिथियों ने वेबका राय रखी। कहा कि वर्तमान पत्रकारिता चुनौतियों से भरा है। आज के परिवेश में पत्रकारिता करना बहुत ही कठिन काम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पांच मिनट में परिणाम पर पहुंचना चाह रहे हैं। इस परिवेश में पत्रकारिता करना बहुत ही संघर्षशील कार्य है। सभी अपना पक्ष व उपलब्धि देखा न सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने

की स्थिति में पत्रकार आंखों का कटे बन जाते हैं। इससे पहले आयोजक समिति की ओर से सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र पांडेय, विधायक प्रतिनिधि राजन पांडेय, मंडल अध्यक्ष रामेश तिवारी, उर्पेंद्र तिवारी, रामानंद तिवारी, संजय तिवारी, किसान मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नंददेव यादव, बालमुकुंद तिवारी, कौशल तिवारी, श्यामा तिवारी, रोहित तिवारी, रवि शंकर चौबे, धनंजय तिवारी, विजय चौबे आदि थे।



# अज्ञात हमलावरों ने घर के गेट पर की गोलीबारी, जांच में जुटी पुलिस जमीन कारोबारी शाहिद बिहारी के घर पर हुई फायरिंग, दहशत

**घटनास्थल पर पहुंची झरिया पुलिस, मौके से खोखा बरामद आजाद सिपाही संवाददाता**

धनसार/झरिया। ऊपरकुल्ही स्थित शमशेरनगर में शनिवार की देर रात 12.30 बजे बीसीसीएल क्वार्टर में रहने वाले जमीन कारोबारी शाहिद बिहारी के घर पर अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। हमलावरों ने शाहिद बिहारी के आवास के गेट पर गोली मारी है। उधर, घटना के बाद से शाहिद बिहारी व उसके परिवारजनों दहशत में है। देर रात हुई इस घटना की खबर पूरे क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गई। इसकी सूचना पाकर रविवार सुबह झरिया थाना प्रभारी संतोष सिंह भी दल बल के साथ पहुंच गए। घटनास्थल की जांच कर वहां से कारतूस का एक



घर के दरवाजे पर चलाई गई गोली के निशान दिखाते पीड़ित।

खोखा बरामद किया गया।

## कोविंग इंस्टीट्यूट संचालक पर हमला करवाने का आरोप

दूसरी ओर, जमीन कारोबारी शाहिद बिहारी ने बताया कि रात में वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों साथ आवास में सो रहे थे, तभी करीब 12.30 बजे गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। बाहर निकल कर देखा तो

घर के दरवाजे पर एक गोली लगने के निशान है। वहीं दूसरी गोली दीवार पर लगी थी। जिसके बाद झरिया थाना को इसकी सूचना दी। शाहिद बिहारी ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पास के रहने वाले इंस्टीट्यूट संचालक आमिर खान नामक युवक से खनकाह के चंदा को लेकर कुछ दिनों पूर्व विवाद जरूरत हुआ था। जब अरमान खान के बहनोई को



मौके से बरामद कारतूस का खोखा।

बताने गए तो आमिर खान वहां पहुंच कर धक्का मुक्की किया था। आशंका है कि उसी ने दुश्मनी निकालने के लिए दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करवाई होगी।

## आरोपित का घटना से इंकार

वहीं, दूसरे पक्ष के आमिर खान ने बताया कि शाहिद बिहारी उनसे जबदस्ती रंगदारी मांग रहा था। एक माह पूर्व ही सऊदी अरब से

झरिया लौटा है। शाहिद बार-बार रंगदारी की रकम मांग रहा था। तब मैंने शाहिद के भाई शाकिर को भी इस बात की जानकारी दी थी। मेरे इंस्टीट्यूट में कई बच्चे पढ़ते थे। जिसमें से कई की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वो उनसे फीस नहीं लेता है। इस कारण शाहिद को लगता था मेरे पास बहुत पैसे हैं। दो दिन पूर्व भी शाहिद मेरे इंस्टीट्यूट में आया और हमें धमकाया था। गोली चलाने की घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि मुझे झरिया पुलिस के इंसाफ पर पूरा विश्वास है। उधर, झरिया थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। जांच की जा रही है। इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

## पानी भरने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक घायल

कतरास (आजाद सिपाही)। राजेंद्र नगर कालोनी में रविवार की सुबह पानी भरने को लेकर दो पक्षों में जंकर मारपीट हो गई। जिसमें एक पक्ष के अर्जुन प्रसाद नामक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया जहां भरम पट्टी कर घर भेज दिया गया। वहीं, घायल अर्जुन ने उक्त घटना की जानकारी कतरास पुलिस को दी। उसने बताया कि सुबह 7.30 बजे दूध लाने जा रहा था, तभी मोहल्ले के सार्वजनिक नल पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों के बीच गाली गलौज व धक्का मुक्की हो रही थी। बीच बचाव करने पर पड़ोस के राहुल ने पत्थर फेंका जिससे उसका सिर फट गया। मैं जमीन पर गिर गया। खून बहता देख लोग वहां से हट गए। पड़ोस के लोगों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया।



## करगली में वाहन के धक्के से युवक की मौत



मृतक आनंद कुमार रविदास की फाइल फोटो।



घटना के बाद जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करती पुलिस।

आजाद सिपाही संवाददाता करगली/बेरमो। बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो-बेरमो मुख्य मार्ग स्थित करगली सीआइएसएफ कैंप के समीप शनिवार के देर रात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक एक युवक की मौत हो गयी। मृतक की पहचान आनंद कुमार रविदास के रूप में हुई है। 24 वर्षीय आनंद गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडीह बाजार स्थित रांची धौड़ा का रहने वाला था। बताते चलें कि उसके पिता दुर्गा रविदास का पहले ही निधन हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आनंद की पुराना बीडीओ ऑफिस में अपनी दुकान है, जिसे शनिवार की रात बंद कर बाइक से अपने

घर रांची धौड़ा लौट रहा था। तभी रास्ते में करगली सीआइएसएफ कैंप के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और बेरमो थाना के पीसीआर वैन के जवानों की मदद से उसे सीसीएल के छोरी केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, मृतक आनंद की मां देवती देवी ने वाहन चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए धक्का मारने से बेटे की मौत होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने की मांग की है। वहीं, बेरमो थाना के एएसआई कालीचरण सुंड़ी व रांकी बाबा ने मामला दर्ज करने की बात कही।

मृतक की मां देवती देवी के आवेदन पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं, पुलिस ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जायगा। दूसरी ओर, अस्पताल पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगरनाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत मृतक के आश्रितों को सहायता प्रदान कराया जाएगा। साथ ही हिट एंड रन के तहत अंचल से मिलने वाली राशि भी उपलब्ध करायी जाएगी। आश्रित के साथ मेरी पूरी संवेदना है।

## सिंह मेंशन की मजदूर राजनीति में दो फाड़ नये संगठन जनता श्रमिक संघ की हुई घोषणा

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। धनबाद के बाहुबली घरानों में शूमर सिंह मेंशन से अब एक नहीं, दो मजदूर संगठन संचालित किए जाएंगे। रविवार को धनबाद के एक निजी हॉटल में प्रेस वार्ता कर इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। जिसके बाद कोयलांचल के मजदूर राजनीति में हलचल मच गई है। नए मजदूर संगठन जनता श्रमिक संघ की घोषणा के साथ ही पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी गई, जिसमें झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह व उनकी पत्नी सह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह के साथ उनके खासमखास समर्थक शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो आगे चलकर जनता श्रमिक संघ की अगुवाई पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ही करेंगी। इस दौरान अपने संबोधन में संगठन के नए अध्यक्ष संतोष सिंह, संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि कोयलांचल के मजदूरों की समस्याओं को लेकर संगठन बनाया गया है। ये संगठन कोयला क्षेत्र के अलावा स्टील, खाद, फर्टिलाइजर सहित अन्य संयंत्रों में कार्यरत मजदूर समस्या के निदान और उनके हित के लिए कार्य करेगा। इस बाबत पत्रकारों द्वारा सिंह मेंशन परिवार और जनता मजदूर संघ में विवाद उत्पन्न होने के सवाल पूछे जाने पर पदाधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि कोयलांचल में दर्जनों मजदूर संगठन



## एचएमएस से प्राप्त की गयी है संबद्धता

सदस्यों ने बताया की नए संगठन की कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई थी। एचएमएस से इसकी संबद्धता भी प्राप्त कर ली गई है। मतलब साफ है कि तैयारी पहले से चल रही थी और घोषणा के लिए समय का इंजाल दिया जा रहा था। घोषणा करने वालों की नजर में यह समय उपयुक्त लगा और आज इसकी घोषणा भी कर दी गई। जनता श्रमिक संघ की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यह संगठन किसी जमाने में पूर्व मंत्री आबो देवी चलाती थीं, लेकिन कतिपय कारणों से इस संगठन का अस्तित्व खत्म हो गया। इसी संगठन को सिंह मेंशन के समर्थकों ने कागजी कार्रवाई करने के बाद अपने पाले में कर लिया और रविवार को इसकी घोषणा कर दी।

हैं, जो अपने-अपने तरीके से मजदूर हित के लिए कार्य करते हैं। वे भी जनता श्रमिक संघ के तहत कार्य करेंगे। जनता मजदूर संघ (जमस) में वे लोग नहीं थे, हालांकि किसी भी मजदूर संगठन के लोग उनके संगठन में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है।

## जमस को लेकर चल रहा था घर में विवाद

जानकारों की मानें तो जनता मजदूर संघ (जमस) को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सिंह मेंशन में

विवाद चल रहा था। संगठन संचालन को लेकर परिवार के पदाधिकारियों में विवाद था, जिस वजह से नए श्रमिक संगठन की रूपरेखा तैयार की गई है। संगठन के पीछे जितने लोग हैं, वह सभी पूर्व विधायक संजीव सिंह के बेहद ही करीबी हैं। मतलब साफ है कि सिंह मेंशन से अब दो संगठन संचालित होंगे। जनता मजदूर संघ की अगुवाई स्व सूर्यदेव सिंह के बेटे सिद्धार्थ गौतम करते रहेंगे। वहीं, दूसरे नए संगठन की अगुवाई आगे चलकर सूर्यदेव सिंह की बहू रागिनी सिंह करेंगी।

## युवाओं को वीर कुंवर सिंह के साहस, पराक्रम और वीरता से प्रेरणा लेने की जरूरत : संजय

आजाद सिपाही संवाददाता

बोकारो। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की जयंती पर भाजपा चास नगर उत्तरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम आयोजित कर वीर कुंवर सिंह कालोनी में स्थापित उनके आदमकद प्रतिमा पर पार्टी के जिला महामंत्री संजय त्यागी, जिला कार्यसमिति सदस्य विनोद सिंह व नगर अध्यक्ष पन्नालाल कानू ने माल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मिटाई बांटेकर विजयोत्सव मनाया। भाजपा चास नगर उत्तरी के कार्यकर्ता व समाजसेवियों ने भी एक-एक कर माल्यापण कर नमन किया। इस अवसर पर भाजपा बोकारो जिला महामंत्री संजय



वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यापण कर नमन करते लोग।

त्यागी ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह अदम्य साहस, वीरता, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। उक्त अवसर पर विनोद सिंह, रोशन सिंह, महेंद्र राय, प्रकाश प्रामाणिक, रणजीत

बर्नवाल, झंतु दे, राघवेंद्र उपाध्याय, हरेकृष्ण मुकेश सिन्हा, दीपक चंद्र बाउरी, राहुल कुमार, जंतु बाउरी, निखिल कुमार, बाल्मिकी सिंह और चंद्र शेखर सिंह आदि शामिल थे।

## बस्ताकोला कोलडंप में ट्रक लोडिंग शुरू करने को लेकर झारखंड उद्योग मंत्रियों ने बिगुल फूंका



धनसार (आजाद सिपाही)। बीसीसीएल के बस्ताकोला कोलडंप में ट्रक लोडिंग शुरू करने व संचालित देवप्रभा आउटसोर्सिंग में रोजगार देने की मांग को लेकर झारखंड उद्योग मंत्रियों के बैनर तले असंगठित मजदूरों ने रविवार को बस्ताकोला में बैठक कर मोर्चा खोल दिया। इसका नेतृत्व कर रहे मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिकू शर्मा ने कहा कि प्रबंधन का यहां ट्रक लोडिंग शुरू करने की मंशा स्पष्ट नहीं है। शीघ्र ट्रक लोडिंग कार्य शुरू करें, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। प्रबंधन से मांग की कि बस्ताकोला कोलडंप में मैनुअल ट्रक लोडिंग चालू किया जाए, ताकि हर हाथ को काम मिल सके। मांग किया कि राबंधन सभी युनियन के साथ बैठक कर यहां जल्द से जल्द ट्रक लोडिंग शुरू करें। वहीं क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को कोल डंप से होने वाले ट्रांसपोर्टिंग कार्य व आउटसोर्सिंग में भी रोजगार दे। लगे हाथ चेतावनी दी कि अगर प्रबंधन ने इन मांगों पर अमल नहीं किया। तो आंदोलन करते हुए ट्रांसपोर्टिंग और आउटसोर्सिंग का चक्का जाम कर दिया जाएगा। बैठक में रिकू शर्मा, संतोष गौड़, रवि विश्वकर्मा, किरन, सरिता सिंह, प्रिंस सिंह, राहुल बाउरी, प्रदीप, धनेश्वर तूरी, आशिष, विक्की आदि उपस्थित थे।

## लोयाबाद के कनकनी में तस्करो का आतंक, डोली टावर काट कर गिराया

लोयाबाद (आजाद सिपाही)। लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी कोलियरी के 4 नंबर स्थित बंद भूमिगत खदान के डोली टॉवर को लोहा तस्करो ने काटकर गिरा दिया है। खदान बंद होने के बाद चानक का डोली टॉवर बेकार पड़ा था। काफी सालों से लावारिस पड़े रहने की वजह से तस्करो की गिद्ध दृष्टि इस पर पड़ गई और रात में इस भारीभरकम टावर को गैस कटर से काटकर गिरा दिया गया। लेकिन रविवार सवेरा हो जाने के कारण तस्करो लोहा नहीं ले जा सके। इसमें करीब 50 टन लोहा होने का अनुमान है।



## दुल्लू महतो समर्थित मजदूरों ने किया खेमका आउटसोर्सिंग का चक्का जाम

## स्थानीय युवाओं को रोजगार दे कंपनी या अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर वापस जायें: जीत भुइया

आजाद सिपाही संवाददाता

बाधमारा/कतरास। बीसीसीएल ब्लॉक टू क्षेत्र में संचालित खेमका केरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी में विधायक दुल्लू महतो समर्थक आइसीसीएल के पुराने मजदूरों ने रोजगार देने की मांग को लेकर रविवार को कंपनी का चक्का जाम कर दिया। इससे कोयला उत्पादन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुखिया जीत भुइया ने कहा कि प्रबंधन तीन माह से झुटे आश्वासन देकर बरगला रहा है। जब भी हमलोगों नियोोजन की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग में



विभिन्न मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग का चक्का जाम कर प्रदर्शन करते मजदूर।

आंदोलन करते हैं तो कभी बीसीसीएल ब्लॉक प्रबंधन तो कभी आउटसोर्सिंग प्रबंधन वार्ता के लिए समय देकर केवल टाल-मटोल की नीति अपनाते हुए एडम पास करने की कोशिश में रहते हैं।

कहते हैं कि थोड़ा और समय दिखाए कंपनी का काम जब विस्तार से चालू हो जायेगी तो पुराने कर्मियों के साथ ही नय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार अवश्य उपलब्ध करायी

## दर्ज है : अनूप

अग्रणी रहे। मातृ-भूमि के प्रति अगाध प्रेम था और दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। तेली समाज में मेधावी विद्यार्थियों के लिए दानवीर भामाशाह सम्मान योजना भी है। यह भारत में एक राज्यस्तरीय सम्मान है।

## एकेडब्ल्यूएमसी परियोजना में अपराधियों का धावा, कर्मियों को बंधक बना संपत्ति लूटी

बाधमारा/कतरास (आजाद सिपाही)। बीसीसीएल वेस्ट मोदीडीह में संचालित एकेडब्ल्यूएमसी परियोजना में रविवार अहले सुबह अपराधियों ने धावा बोल दिया। कंपनी के शॉवल मशीन पर कार्य कर रहे तीन कर्मियों को बंधक बनाकर कीमती लोहा समाग्री और केवल लूट ले गए। इस बाबत मुक्तभोगियों ने बताया कि वे सभी अपने मशीन नंबर 23 के पास कार्य कर रहे थे। तभी तड़के चार बजे दर्जनों नकाबपोश अपराधी मशीन के पास पहुंच गए। वे लोग कुछ समय पाते उससे पहले ही अपराधियों ने गाली गलौज करते ऑपरैटर विभूति, केवल मै न मुना भुइया और फिटर मो आरिफ को हथियार का भय दिखाकर केबिन में बंद कर दिया। इसके बाद मशीन के काउंटर वेट से लोहा समाग्री एवं केवल काट कर चलते बने। घटना के बाद अधिकारियों को सूचना दी



गई। उधर, खबर पाते ही कतरास क्षेत्र के सीआइएसएफ एवं बीसीसीएल पदाधिकारी मौके पर पहुंच कर छानबीन किए और घटना की जानकारी ली। परियोजना पदाधिकारी संजय चौधरी ने बताया कि अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर 97 हजार रुपये की लौह समाग्री ले गए हैं। छानबीन करने पर कुछ सामान झाड़ियों से बरामद हुआ। चोरी होने के कुछ घंटे बाद ही मशीन को सुचारू कर दिया गया है। घटना के संबंध में अंगारपथरा ओपी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई कि मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

## संपूर्ण जनजागृति संस्था में मनाया विश्व पुस्तक दिवस

बाधमारा/कतरास (आजाद सिपाही)। डुमरा स्थित संपूर्ण जनजागृति संस्था के शिक्षा केंद्र में रविवार को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। इस दौरान आज के डिजिटल युग में पुस्तक की महता विषय पर चर्चा करते हुए पुस्तक पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। संस्था द्वारा बच्चों के बीच त्रिमासिक नैऋतिक बेसिक कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित प्रामाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर मुखिया आनंद कुमार महतो, डॉ मुकेश राय, शिक्षाविद सत्यजीत सोनु, मदन महतो, सुजीत राय, चंदन मिश्रा, दीपक महतो आदि थे।



## भारत-चीन के बीच 18वें दौर की कोर कमांडर वार्ता

आजाद सिपाही संवाददाता नयी दिल्ली। तीन साल पुराने सैन्य गतिरोध को हल करने की मांग करते हुए, भारत और चीन चुशुल में रविवार को कोर कमांडर स्तर की 18 वीं दौर की वार्ता आयोजित कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष से, बैठक का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली कर रहे हैं और चीनी पक्ष से समकक्ष रैंक के अधिकारी पूर्वी लड़ाख सेक्टर में बैठक कर रहे हैं। यह बैठक पांच महीने के अंतराल के बाद हो रही है। इसके पहले दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर की आखिरी बैठक पिछले साल दिसंबर में हुई थी। यह बैठक तब हो रही है जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं। भारतीय पक्ष देपसांग के मैदानों, डेमचोक और दोनों पक्षों द्वारा पीछे हटने का मुद्दा बार-बार उठाता रहा है।

# कृषि दिवस पर नवीन पटनायक ने अक्षी मुठी का किया शुभारंभ

**आजाद सिपाही संवाददाता भुवनेश्वर।** मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को अक्षय तृतीया किसान दिवस के अवसर पर कई लोकप्रिय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले ओड़िशा कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय गये और वहाँ पर अक्षी मुठी का शुभारंभ के साथ राज्य के किसान भाइयों और बहनों का अभिवादन किया।



बाद में वे लोक सेवा भवन आये और वहाँ मिलट शक्ति कैफे का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने कुपोषण नियंत्रण में मंडिया एवं अन्य मिलेट अनाज के महत्व को समझते हुए मिलेट मिशन लागू किया है। प्रदेश में अब तक 142 मिलेट की दुकानें खोली जा चुकी हैं।



इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'कृषि समीक्षा केंद्र' का भी उद्घाटन किया। राज्य कृषि भवन केंद्र में एक नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। कंचूट और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में, यह क्षेत्र स्तर से वास्तविक समय को जानकारी प्राप्त करके निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

**राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं**  
संतोष कुमार महली  
मुखिया  
तुमांग पंचायत

**राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं**  
पुतल देवी  
मुखिया  
लापरा पंचायत

**बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित**  
VERMA PRESS PVT. LTD.  
5  
लोकेशन, लॉगो और एड्रेस धरें  
मिटर-जुलते नामवाली नकली पुस्तकें से सावधान !

## भौतिक संस्थान में जन-भागीदारी श्रृंखला का समापन

**आजाद सिपाही संवाददाता भुवनेश्वर।** जागरूकता बढ़ाने और राज्य में भारत की जी-20 अध्यक्षता के साथ भागीदारी और स्वामित्व की भावना को आत्मसात करने के लिए भौतिक संस्थान, भुवनेश्वर को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ओड़िशा की जनजातियां, तटीय विकास आदि विषय पर संगोष्ठी, वेबिनार, प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनीयां और अन्य कार्यक्रम के रूप में 1 से 22 अप्रैल 2023 तक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने हेतु शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के लिए तैयारी के हिस्से के रूप में एक स्टैडअलोन संस्थान के रूप में पहचान की गयी है। भौतिक संस्थान, भुवनेश्वर में उत्कल दिवस के शुभ दिन पर जन-भागीदारी श्रृंखला (भारत की जी 20 प्रेसीडेंसी के तहत एक पहल) की शुरुआत हुई थी।



जन-भागीदारी कार्यक्रमों के पहले दिन से, भौतिक संस्थान, भुवनेश्वर (आइओपी), ने जवाहार नवोदय विद्यालय, कोणार्क, पुरी में प्रकाश संदीप्ति सामग्री और अनुप्रयोग, परमाणु ऊर्जा और इसके सामाजिक अनुप्रयोग, और नैनोसाइंस और नैनोटेक्नोलॉजी शीपक पर कई तकनीकी सत्र आयोजित किया। इसी प्रकार 15 अप्रैल को सालेपुर स्वयंशासी महाविद्यालय, सालेपुर में और 10 अप्रैल को ई-टेक आवासीय डिग्री महाविद्यालय, टेंकानाल में विज्ञान आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रो. करुणा कर नद, निदेशक ने भविष्य में ऊर्जा का स्रोत, और डॉ. एसएन पडंगी, संयोजक ने और डॉ. बी मल्लिक के साथ नाभिकीय ऊर्जा पर एक व्याख्यान प्रदान किया, जो तीसरे जी-20 शिक्षा कार्य समिति बैठक समिति द्वारा आइओपी दिये गये विषय के अनुसार उचित था। इनके अलावा, 13 अप्रैल को सिद्धांत दास, कानपुर द्वारा चुबंकीय प्रभाव पर वेबिनार पर एक वार्ता प्रदान की। 19-20 अप्रैल को दो दिवसीय राजभाषा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम रेवेन्सा विश्वविद्यालय और रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया। ये आयोजन भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान सार्वजनिक भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ावा देने के आइओपी के प्रयासों का हिस्सा हैं।

पाड़ी ने मुख्यमंत्री को केंद्र के कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक क्रेच 'कलिका' का भी उद्घाटन किया। यहां प्रारंभिक चरण में 20 बच्चों को रहने का ब्यावस्ता किया गया है।

कार्यक्रम में भाग लिया और आइओपी अनुसंधान केंद्र और आइओपी सामान्य पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की सिफारिश की। इसके अलावा उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रों ने जन-भागीदारी कार्यक्रम की गतिविधियों को देखने और पुस्तक प्रदर्शनी देखने के लिए आइओपी का दौरा किया। आइओपी का उद्देश्य ऐसे आयोजनों के माध्यम से भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान सार्वजनिक भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ावा देना है।

## 'विश्व गुरु बनने के लिए वेदों-संस्कृत के ज्ञान का पोषण जरूरी' समय के साथ बदली हमारी संस्कृति : भागवत

**आजाद सिपाही संवाददाता अहमदाबाद।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वेदों के ज्ञान और संस्कृत की प्राचीन भाषा को जानने और विकसित करने पर जोर दिया। रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस चीफ ने कहा कि अगर भारत को 'विश्व गुरु' बनना है तो उसके लिए वेदों के ज्ञान और संस्कृत की प्राचीन भाषा को विकसित करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन यह समय के साथ बदलती रही है। वे गुजरात के साबरकांठा में मुंदेरी गांव में श्री भगवान याज्ञवल्क्य वेदतत्त्वज्ञान योगाश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'वेद संस्कृत ज्ञान गौरव समरंभ' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत वेदों के मूल्यों पर बना है, जिनका पीढ़ी

दर पीढ़ी पालन किया जाता रहा है। ऐसे में आज के भारत को विकसित होना है, लेकिन उसका लक्ष्य अमेरिका, चीन और रूस को तरह महाशक्ति बनना नहीं है बल्कि हमें एक ऐसा देश बनना है जो आज दुनिया को परेशान करने वाली समस्याओं का जवाब दे सके। ऐसा देश जो अपने सही आचरण से दुनिया को शांति, प्रेम और समृद्धि का रास्ता दिखा सके।

जैसे आदिवासी नृत्य, ओडिसी नृत्य, संबलपुरी नृत्य, वृक्षारोपण और परिसर के अंदर और परिसर के बाहर, चंद्रभागा सागरतट, पुरी और कपिलाश, टेंकानाल में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन 22 अप्रैल को विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता पर एक व्यापक कार्यक्रम के साथ हुआ, जहां विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र भाग लेंगे, जिसके बाद पुरस्कार वितरण के साथ समापन सत्र होगा।

**पीएम मोदी को धमकी देनेवाला गिरफ्तार**  
केरल (आजाद सिपाही)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को केरल की पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पीएम मोदी के केरल के दौरे से पहले बीजेपी ऑफिस में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। उसके बाद से राज्य में हाई अलर्ट रखा गया था। कोच्चि के पुलिस आयुक्त के सेतु रमन ने कहा है कि पुलिस ने चिट्ठी भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी भरे पत्र भेजने के पीछे इस शख्स की मंशा का खुलासा करते हुए कहा कि इस पत्र को भेजने के पीछे इस शख्स की मंशा अपने पड़ोसी के साथ निजी दुश्मनी थी।

## अतिरिक्त देरी के कारण कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया

**भुवनेश्वर (आजाद सिपाही)।** ट्रेन नंबर 18477 पुरी-नयी दिल्ली किलिंग उत्कल एक्सप्रेस रविवार को पुरी से चलने वाली थी, लेकिन कोलिंग उत्कल एक्सप्रेस रुसिकेश से पुरी के बीच अतिरिक्त देरी के कारण रद्द कर दी गयी है। ट्रेन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

**कृष्णा ज्वेलर्स**  
समस्या है तो! समाधान भी है!  
आचार्य प्रणव मिश्रा  
प्रसिद्ध ज्योतिष रत्न गोल्डमेडलिस्ट, M.M  
(ज्योतिषविज्ञान) टॉपर 2012 एवं (P.H.D) रांची, वि. वि. रांची  
गांधी चौक, सोनार गली, वीण वरमालय के सामने अपर बाजार, रांची

**Study MBBS in ABROAD**  
RUSSIA GEORGIA POLAND EGYPT KAZHAKASTAN UZBEKISTAN  
Get Direct Admission in Top Government Medical Universities of ABROAD.  
Call Now! +91-7903149721

**Shiva Traders**  
Ranjeet Singh Kundan Singh Proprietor  
T: +91-9934189684 76673 84788  
Shiva Complex, Rajender Chowk, Giridih Bypass Road Koderma(JH)825410  
Mob: 9939563560, 7004525571, Email id: shivacement212@gmail.com

**बोरिंग के लिए संपर्क करें**  
जल ही जीवन  
993106883 9113754813  
रांची के अंदर कहीं भी अच्छे रेट में  
Contact for : Deep Boring, 405" 6" 8" Dia All Motor & Pump Fitting, Building Material

**Alpha Institute of Computer Education**  
FREE FRANCHISE  
Just call us : 9835502908  
Franchise Benefit:  
All Computer courses, Vocational courses, Authorization Letter, Authorization Certificate, Web Login ID & Password, Study Material Support, Branded Name, PDP Certificate in 24 Hrs, Hard Copy Certificate & Mark sheet, Students Placement Support, Marketing Support, Online & Offline Certificate Verification, Yearly Career Guidance Seminar in your city, Paper and Media Support.

**S M TOY & School Furniture**  
Old Bank Colony, RMCH Road Sadhu Maidan  
Shop Add.: Industrial Area Kokar, Ranchi-834001 (Jharkhand)  
Everything From A to Z For School, Playground, Playschool Park, Playazone, Malls, Backyard, Recreation Zone Society & Anganwadis  
PROP. SANTOSH KUMAR 7503729696, 9205624569

**अविराम ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस**  
(मान्यता एवं संबद्धता रांची वि.वि., जैक, एनपीयू, पी.सी.आई., JSPC, JNRC एवं चिह्नित NCTE मुवनेश्वर उड़ीसा)  
टिको, कुडू, लोहरदगा एवं हुटाप, चंदवा, लातेहार (झारखंड)  
इंट एव स्नातक पास बालक/बालिकाएं शीघ्र प्रवेश लें एव B.ed के अतिरिक्त अन्य में सीधे प्रवेश हेतु आवेदन करें  
झारखंड स्टेट एवं रांची विश्वविद्यालय में टॉपर देने वाले संस्थान में प्रवेश का सुनहरा अवसर  
A.N.M, D.Pharmacy, B.Ed., B.Sc Nursing, D.El.Ed.  
FACILITIES : SCHOLARSHIP ◆ BUS & HOSTEL FACILITY ◆ CAMPUS PLACEMENT ◆ WELL EQUIPPED LAB ◆ ONLINE ADMISSION PAYMENT & ONLINE CLASS FACILITY  
URGENT REQUIREMENT  
B. Sc Nursing/ M.Sc Nursing Pass, D. Pharma/ B. Pharmacy Pass, B.Ed & M.Ed in (Science/Literature Social Science) Send resume within 3 days in 7782054270  
संपर्क क्रौजि : 7782054270, 8987470640

**PERFECT AQUA**  
टॉप क्वालिटी वाटर प्लांट सेटअप, शुद्ध पानी के साथ होगा फायदा जबरदस्त  
Call now

**ज्योतिष ग्रह रत्न केन्द्र**  
ज्योतिष शास्त्र • वास्तु शास्त्र • हस्त शास्त्र • हस्त रेखा • अंक शास्त्र  
पंडित शशि कान्त मिश्रा  
पता - लाईन टैंक रोड, गोपाल गंज गली, अपोजिट-भूतपूर्व बारगेन बाजार, रांची  
फोन :- 9334718296, 9835195382, 9431792761